



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 कार्तिक 1930 (श10)
(सं0 पटना 535) पटना, बुधवार, 19 नवम्बर 2008

वित्त विभाग

अधिसूचना

19 नवम्बर 2008

सं० 1/प्रो (क०प्रोग्रामर)-01/2005-9637वि(2)—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, वित्त विभाग के डाटा कोषांग के कर्मियों की नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ-

(I) यह नियमावली कम्प्यूटर कार्मिक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी।

(II) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ- इस नियमावली में जहां सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(I) 'सरकार' से तात्पर्य है बिहार सरकार ;

(II) 'संवर्ग' से तात्पर्य है वित्त विभाग के डाटा कोषांग के कम्प्यूटर कार्मिकों का संवर्ग ;

(III) 'सदस्य' से तात्पर्य है वित्त विभाग के डाटा कोषांग के कम्प्यूटर कर्मियों के पद पर नियुक्त कोई कर्मी और इसमें नियमावली गठन के पूर्व से नियुक्त कार्मिक भी शामिल हैं; तथा

(IV) 'नियुक्ति प्राधिकार' से तात्पर्य है प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग।

3. संवर्ग की संरचना- वित्त विभाग के डाटा कोषांग के कम्प्यूटर कार्मिकों की संवर्गीय संरचना एवं वेतनमान निम्नरूपेण होगी :-

(I) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर 'ग्रेड सी' -ग्रुप 'सी' अराजपत्रित वेतनमान - 5000-8000

(II) सहायक प्रोग्रामर - ग्रुप 'बी' अराजपत्रित वेतनमान - 5500-9000

(III) प्रोग्रामर - ग्रुप 'बी' राजपत्रित वेतनमान - 6500-10500

(IV) प्रणाली विश्लेषक - ग्रुप 'ए' राजपत्रित वेतनमान - 10000-15200

4. संवर्ग बल- संवर्ग का अधिकृत बल वह होगा जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।

5. संवर्ग में नियुक्ति- (क) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड 'सी' के पद पर सीधी नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी।

- (ख) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड “सी” के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक योग्यता के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीओजीडीओसीओएओ अथवा बीओसीओएओ/बीओएसओसीओ (आईटीओ) या उसके समकक्ष होना अनिवार्य होगा।
- (ग) प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करने के बाद अध्यायचना 30, अप्रैल तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी जायेगी तथा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयनोपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जायेगी। आयोग की अनुशंसा एक वर्ष के लिए वैध मानी जायेगी।
- (घ) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विषय का निर्धारण वित्त विभाग की सलाह से बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जायेगा।
- (ङ) नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।
- 6. परीक्ष्यमान अवधि-** संवर्ग की किसी कोटि में नियुक्त कर्मों की नियुक्ति परीक्ष्यमान रूप में दो वर्षों के लिए की जायेगी तथा विशेष परिस्थिति में अगले एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी।
- 7. सम्पुष्टि-** परीक्ष्यमान अवधि में संतोषजनक सेवा पाए जाने के उपरान्त तथा इसके लिए विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सेवा सम्पुष्टि की जा सकेगी। सम्पुष्टि के पश्चात् परीक्ष्यमान अवधि नियमित सेवा के प्रयोजनार्थ गिनी जायेगी।
- 8. विभागीय परीक्षा-** (क) परीक्ष्यमान रूप में नियुक्त कर्मियों को सेवा- सम्पुष्टि के लिए विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- (ख) विभागीय परीक्षा का आयोजन राजस्व पर्वद्वारा किया जायेगा।
- (ग) विभागीय परीक्षा के लिए विषय का निर्धारण वित्त विभाग के परामर्श से राजस्व पर्वद्वारा किया जायेगा।
- (घ) विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 9. वरीयता-** संवर्ग की किसी कोटि के कर्मियों की उस कोटि में आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रमांक के अनुसार होगी।
- 10. प्रोन्नति-** (1) सहायक प्रोग्रामर के पचास प्रतिशत पद पर प्रोन्नति डाटा इन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड ‘सी’ के योग्य कर्मियों को राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि पूरा होने पर वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।
- (2) (क) **सीधी नियुक्ति :-** सहायक प्रोग्रामर के 50 प्रतिशत पद पर निर्धारित योग्यताधारी उम्मीदवार की सीधी नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी।
- (ख) सहायक प्रोग्रामर के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीओसीओएओ/बीओएसओसीओ (आईटीओ) अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ पीओजीडीओसीओएओ एवं दो वर्षों के डाटा प्रोसेसिंग के अनुभव का होना अनिवार्य होगा।
- (ग) सहायक प्रोग्रामर के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु विषय का निर्धारण बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से किया जायेगा।
- (3) (क) विहित कालावधि पूरा करने वाले सहायक प्रोग्रामर को वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोग्रामर के पचास प्रतिशत पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।
- (ख) प्रोग्रामर के पचास प्रतिशत पद पर सीधी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा सकेगी।
- (ग) प्रोग्रामर के पद पर सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति की योग्यता डिग्री इन कम्प्यूटर साइंस एवं इंजिनियरिंग तथा एमओसीओएओ/एमओएसओसीओ (आईटीओ) के साथ तीन वर्षों का डाटा प्रोसेसिंग का अनुभव अनिवार्य होगा।
- (घ) प्रोग्रामर के पद पर नियुक्ति हेतु विषय का निर्धारण “बिहार लोक सेवा आयोग” द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से किया जायेगा।
- (4) (क) विहित कालावधि पूरा करने वाले प्रोग्रामर को योग्यता-सह-वरीयता के आधार पर प्रणाली विश्लेषक के पद पर प्रोन्नति दी जायेगी। प्रणाली विश्लेषक के पद के लिये निर्धारित योग्यता, प्रोग्रामर के पद के लिये निर्धारित योग्यता के समान अर्थात् “डिग्री इन कम्प्यूटर साइंस एवं इंजिनियरिंग अथवा एमओसीओएओ के साथ तीन वर्षों का डाटा प्रोसेसिंग का अनुभव” होगा।
- (ख) प्रणाली विश्लेषक का पद मात्र प्रोन्नति द्वारा ही भरा जायेगा।
- (ग) प्रोन्नति हेतु कालावधि - संवर्ग के किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नति हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि का पूरा होना आवश्यक होगा।
- 11. आरक्षण-** राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लागू आरक्षण नियम इस संवर्ग पर भी लागू होगा।
- 12. (क)** सेवा से संबंधित अन्य शर्तें जिनका इस नियमावली में पावधान नहीं किया गया है, राज्य सरकार के कर्मियों पर लागू होनेवाले अन्य नियमावलियों के अनुसार होंगी।
- (ख) सेवा संबंधी किसी मामले में कठिनाई होने पर नियम शिथिल करने की शक्ति वित्त विभाग को होगी।

13. **निरसन एवं व्यावृत्ति।-** नियमावली अधिसूचित होने के पूर्व संवर्ग के संबंध में की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन की गई समझी जाएगी तथा एतद् संबंधी पूर्व के सभी नियम/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित समझे जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ए० के० चौधरी,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 535-571+000-डी०टी०पी०।